



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-02012025-259807  
CG-TL-E-02012025-259807

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5222]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2024/पौष 9, 1946

No. 5222]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2024/PAUSHA 9, 1946

रेल मंत्रालय  
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 18 दिसम्बर, 2024

**का.आ. 5642(अ).**—रेलवे अधिनियम 1989 (1989 का 24), की धारा 20ए की उप-धारा(I) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में “गुंटूर – बीबीनगर स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन दोहरीकरण”, के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करता है।

उक्तभूमि में हितप्रद कोई भी व्यक्ति, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा(I) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, गुंटूर, गुंटूर जिला को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी एवं गुंटूर जिला के राजस्व मंडल अधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (II) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना में शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में इनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

भूमि अधिग्रहण का विवरण : यात्री और माल सुविधाओं के लिए गुंटूर जिला क्षेत्राधिकार की सीमा के भीतर गुंटूर और बीबीनगर (239 किमी.) के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण.

क्र.सं.	मंडल का नाम	गांव का नाम	क्र.सं.	सर्वे संख्या	एलपीएम संख्या	भू-अधिग्रहण का अनुमानित क्षेत्र (एकड़ में)	अनुमानित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	वर्गीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मेडिकोंडूरु	सिरिपुरम	1	172/ए	730	0.04	0.016	पट्टा भूमि
			2	172/ए	731	2.17	0.879	पट्टा भूमि
			3	166/ए	739	1.76	0.713	पट्टा भूमि
			4	164ए, 167	761	0.31	0.126	पट्टा भूमि
			5	164/ए	767	0.15	0.061	पट्टा भूमि
			6	161/ए	768	0.25	0.101	पट्टा भूमि
			7	161/ए	772	0.27	0.109	पट्टा भूमि
			8	143	857	0.06	0.024	पट्टा भूमि
			9	142/ए	884	0.43	0.174	पट्टा भूमि
			10	144/ए	885	0.02	0.008	पट्टा भूमि
			11	144/ए	886	0.38	0.154	पट्टा भूमि
			12	141/ए	889	0.12	0.049	पट्टा भूमि
			13	317/ए	2047	0.13	0.053	पट्टा भूमि
			14	156/ए	2078	0.16	0.065	पट्टा भूमि
			15	318/ए	2507	1.26	0.510	पट्टा भूमि
			16	317/ए	2517	0.39	0.158	पट्टा भूमि
			17	317/ए	2519	0.17	0.069	पट्टा भूमि
			18	317ए	2520	0.40	0.162	पट्टा

					भूमि
19	322/ए	2534	0.39	0.158	पट्टा भूमि
20	322/ए	2535	0.12	0.049	पट्टा भूमि
21	376/ए	2664	0.54	0.219	पट्टा भूमि
22	376/ए	2665	0.16	0.065	पट्टा भूमि
23	376/ए	2666	0.28	0.113	पट्टा भूमि
24	376/ए	2667	0.02	0.008	पट्टा भूमि
25	376/ए	2668	0.30	0.122	पट्टा भूमि
26	375/ए	2669	0.14	0.057	पट्टा भूमि
27	375/ए	2671	0.15	0.061	पट्टा भूमि
28	375/ए, 352/ए	2672	0.25	0.101	पट्टा भूमि
29	356/ए	2673	0.04	0.016	पट्टा भूमि
30	356/ए	2679	0.23	0.093	पट्टा भूमि
31	357/ए, 356/ए	2680	0.11	0.045	पट्टा भूमि
32	356/ए	2683	0.10	0.041	पट्टा भूमि
33	359/ए	2684	0.21	0.085	पट्टा भूमि
34	359/ए	2685	0.09	0.036	पट्टा भूमि
35	359/ए	2686	0.12	0.049	पट्टा भूमि
36	359/ए	2687	0.38	0.154	पट्टा भूमि
37	356/ए, 352/ए	2863	0.06	0.024	पट्टा भूमि
38	356/ए, 352/ए	2864	0.04	0.016	पट्टा भूमि
39	356/ए, 352/ए	2865	0.21	0.085	पट्टा भूमि
40	174/ए	3080	1.46	0.591	पट्टा भूमि
41	141/ए	3094	0.29	0.117	पट्टा

								भूमि
			42	118,117,119/ए, 120/ए, 121, 123/ए	3002	2.10	0.851	पट्टा भूमि
			43	84	3191	0.005	0.002	पट्टा भूमि
			44	140/ए-1बी	888	0.14	0.057	सरकारी भूमि
			45	85	2308	0.07	0.028	सरकारी भूमि
			46	319	2506	0.03	0.012	सरकारी भूमि
			47	360/ए	2587	0.10	0.041	सरकारी भूमि
			48	170/बी	728	0.08	0.032	सरकारी भूमि
			49	378/ए	3037	0.03	0.012	सरकारी भूमि
			50	349	2845	0.06	0.024	सरकारी भूमि
			51	157/ए	774	0.01	0.004	सरकारी भूमि
			कुल योग			16.785	6.798	
2	मेडिकोडूरु	विसदला	1	19/बी	124	0.35	0.142	पट्टा भूमि
			2	18/बी, 19/बी	125	0.38	0.154	पट्टा भूमि
			3	17/बी	126	0.23	0.093	पट्टा भूमि
			4	17/बी	127	0.16	0.065	पट्टा भूमि
			5	13/बी	129	0.020	0.008	सरकारी भूमि
			कुल योग			1.140	0.462	
3	मेडिकोडूरु	मंदपाडु	1	156/बी-1ए		0.12	0.049	पट्टा भूमि
			2	156/बी-2ए		0.12	0.049	पट्टा भूमि
			3	156/बी-3ए		0.19	0.077	पट्टा भूमि
			4	157/बी-1		0.43	0.174	पट्टा भूमि
			5	161/बी-1बी		0.57	0.231	पट्टा भूमि
			6	161/बी-3ए		0.18	0.073	पट्टा भूमि

			7	161/बी-3सी		0.11	0.045	पट्टा भूमि
			8	161/बी-4ए		0.13	0.053	पट्टा भूमि
			9	161/बी-5ए		0.12	0.049	पट्टा भूमि
			10	162-2		0.61	0.247	पट्टा भूमि
			11	170/बी		1.170	0.474	पट्टा भूमि
			12	171-1बी		0.14	0.057	पट्टा भूमि
			13	171-2बी		0.22	0.089	पट्टा भूमि
			14	173/बी-1		0.33	0.134	पट्टा भूमि
			15	173/बी-4		0.50	0.203	पट्टा भूमि
			16	193-1		0.10	0.041	पट्टा भूमि
			17	201/ए-1		0.24	0.097	पट्टा भूमि
			18	203/ए-1ए		0.02	0.008	पट्टा भूमि
			19	203/बी-1		0.115	0.047	पट्टा भूमि
			20	203/बी-2		0.58	0.235	पट्टा भूमि
			21	204/बी		0.58	0.235	पट्टा भूमि
			22	205/बी-1		0.02	0.008	पट्टा भूमि
			23	205/बी-2		0.22	0.089	पट्टा भूमि
			24	217		0.23	0.093	पट्टा भूमि
			25	218/बी		1.07	0.433	पट्टा भूमि
			26	226/बी		1.20	0.486	पट्टा भूमि
			27	155/बी		0.02	0.008	सरकारी भूमि
			28	161/बी-1ए		0.26	0.105	सरकारी भूमि
			29	162-1		0.22	0.089	सरकारी भूमि

			30	171-1ए		0.13	0.053	सरकारी भूमि
			31	175/बी		0.03	0.012	सरकारी भूमि
			32	215/बी		0.03	0.012	सरकारी भूमि
			कुल योग			10.005	4.052	
4	ताडिकोंडा	बंडारुपल्लि	1	443/बी-2		0.095	0.038	पट्टा भूमि
			2	443/बी-3		0.085	0.034	पट्टा भूमि
			3	470/बी		0.32	0.130	पट्टा भूमि
			4	471/बी		0.01	0.004	पट्टा भूमि
			5	476/बी		0.72	0.292	पट्टा भूमि
			6	477		0.34	0.138	पट्टा भूमि
			7	479/बी		0.64	0.259	पट्टा भूमि
			8	493		0.52	0.211	पट्टा भूमि
			9	494/बी		0.05	0.020	पट्टा भूमि
			10	495/बी-1		0.24	0.097	पट्टा भूमि
			11	496-ए		0.50	0.203	पट्टा भूमि
			12	505		0.10	0.041	पट्टा भूमि
			13	508		0.01	0.004	पट्टा भूमि
			14	509/बी		0.28	0.113	पट्टा भूमि
			15	510/बी		0.19	0.077	पट्टा भूमि
			16	513/बी		0.07	0.028	पट्टा भूमि
			17	542/बी		1.05	0.425	पट्टा भूमि
			18	617/बी-1		0.15	0.061	पट्टा भूमि
			19	621/बी		0.38	0.154	पट्टा भूमि
			20	623/बी		0.28	0.113	पट्टा

					भूमि
21	624/बी-1		0.70	0.284	पट्टा भूमि
22	624/बी-2		0.08	0.032	पट्टा भूमि
23	626/बी-1		0.455	0.184	पट्टा भूमि
24	626/बी-2		0.03	0.012	पट्टा भूमि
25	648/बी-1		0.22	0.089	पट्टा भूमि
26	651-2		0.19	0.075	पट्टा भूमि
27	652/बी		0.32	0.130	पट्टा भूमि
28	656		0.30	0.122	पट्टा भूमि
29	658-2		0.11	0.045	पट्टा भूमि
30	658-5		0.17	0.069	पट्टा भूमि
31	659/बी		0.30	0.122	पट्टा भूमि
32	664/बी		0.08	0.032	पट्टा भूमि
33	665/बी-1		0.46	0.186	पट्टा भूमि
34	665/बी-2ए		0.08	0.032	पट्टा भूमि
35	665/बी-2सी		0.21	0.085	पट्टा भूमि
36	666-2ए		0.01	0.004	पट्टा भूमि
37	666-2सी		0.14	0.057	पट्टा भूमि
38	445/बी		0.06	0.024	सरकारी भूमि
39	495/बी-2		0.06	0.024	सरकारी भूमि
40	543/बी		0.11	0.045	सरकारी भूमि
41	649/बी		0.02	0.008	सरकारी भूमि
42	665/बी-2बी		0.17	0.069	सरकारी भूमि
43	666-2बी		0.07	0.028	सरकारी

								भूमि
			कुल योग			10.370	4.200	
5	गुंटूर वेस्ट	नल्लपाडु रूरल	1	674-2		0.20	0.081	पट्टा भूमि
			2	680-1		0.23	0.093	पट्टा भूमि
			3	681-1		0.32	0.130	पट्टा भूमि
			4	683-2		0.115	0.047	पट्टा भूमि
			5	684-1बी		0.05	0.020	पट्टा भूमि
			कुल योग			0.915	0.371	
6	गुंटूर वेस्ट	चिना पलकलूरु	1	185/बी		1.20	0.486	पट्टा भूमि
			2	188-1		0.44	0.178	पट्टा भूमि
			3	188-3		0.04	0.016	पट्टा भूमि
			4	191-ए		0.02	0.008	पट्टा भूमि
			5	223-3		0.10	0.041	पट्टा भूमि
			6	224-3		0.16	0.065	पट्टा भूमि
			7	242-3		0.19	0.077	पट्टा भूमि
			8	243-सी2		0.33	0.134	पट्टा भूमि
			9	246-ए3		0.27	0.109	पट्टा भूमि
			10	246-सी2		0.33	0.134	पट्टा भूमि
			11	187		0.15	0.061	सरकारी भूमि
			12	188-2		0.03	0.012	सरकारी भूमि
			13	244		0.11	0.045	सरकारी भूमि
			14	251		0.05	0.020	सरकारी भूमि
			कुल योग			3.420	1.385	
	सकल योग (1+2+3+4+5+6)					42.635	17.268	

[फा. सं.: W.Con.182/SRP-03/GNT-BN/23-24/244/20A/171224]

के. सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-III



**MINISTRY OF RAILWAYS****(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 18th December, 2024

**S.O. 5642(E).**—in exercise of the power conferred by sub-section (I) of Section 20-A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the special railway project, Doubling of railway line between Guntur – Bibinagar Stations in Guntur District in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20(D) of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely Revenue Divisional Officer Guntur, Guntur District in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority and Revenue Divisional Officer, Guntur of Guntur District shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary, by, order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

Description of lands in acquisition: Doubling of Railway line between Guntur and Bibinagar (239 Km) within the limits of Guntur District jurisdiction for passengers and freight facility

Sl No .	Name of the Mandal	Name of the Village	Sl No		LPM Number	Tentative Area in Acres (LA Extent)	Tentative Area in Hectares	Classification
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Medikonduru	Siripuram	1	172/A	730	0.04	0.016	Patta Land
			2	172/A	731	2.17	0.879	Patta Land
			3	166/A	739	1.76	0.713	Patta Land
			4	164A, 167	761	0.31	0.126	Patta Land
			5	164/A	767	0.15	0.061	Patta Land
			6	161/A	768	0.25	0.101	Patta Land
			7	161/A	772	0.27	0.109	Patta

						Land
8	143	857	0.06	0.024		Patta Land
9	142/A	884	0.43	0.174		Patta Land
10	144/A	885	0.02	0.008		Patta Land
11	144/A	886	0.38	0.154		Patta Land
12	141/A	889	0.12	0.049		Patta Land
13	317/A	2047	0.13	0.053		Patta Land
14	156/A	2078	0.16	0.065		Patta Land
15	318/A	2507	1.26	0.510		Patta Land
16	317/A	2517	0.39	0.158		Patta Land
17	317/A	2519	0.17	0.069		Patta Land
18	317A	2520	0.40	0.162		Patta Land
19	322/A	2534	0.39	0.158		Patta Land
20	322/A	2535	0.12	0.049		Patta Land
21	376/A	2664	0.54	0.219		Patta Land
22	376/A	2665	0.16	0.065		Patta Land
23	376/A	2666	0.28	0.113		Patta Land
24	376/A	2667	0.02	0.008		Patta Land
25	376/A	2668	0.30	0.122		Patta Land
26	375/A	2669	0.14	0.057		Patta Land
27	375/A	2671	0.15	0.061		Patta Land
28	375/A, 352/A	2672	0.25	0.101		Patta Land
29	356/A	2673	0.04	0.016		Patta Land
30	356/A	2679	0.23	0.093		Patta Land
31	357/A, 356/A	2680	0.11	0.045		Patta Land
32	356/A	2683	0.10	0.041		Patta Land
33	359/A	2684	0.21	0.085		Patta Land
34	359/A	2685	0.09	0.036		Patta Land
35	359/A	2686	0.12	0.049		Patta Land
36	359/A	2687	0.38	0.154		Patta Land
37	356/A, 352/A	2863	0.06	0.024		Patta Land

			38	356/A, 352/A	2864	0.04	0.016	Patta Land
			39	356/A, 352/A	2865	0.21	0.085	Patta Land
			40	174/A	3080	1.46	0.591	Patta Land
			41	141/A	3094	0.29	0.117	Patta Land
			42	118,117,119/A, 120/A, 121, 123/A	3002	2.10	0.851	Patta Land
			43	84	3191	0.005	0.002	Patta Land
			44	140/A-1B	888	0.14	0.057	Govt. Land
			45	85	2308	0.07	0.028	Govt. Land
			46	319	2506	0.03	0.012	Govt. Land
			47	360/A	2587	0.10	0.041	Govt. Land
			48	170/B	728	0.08	0.032	Govt. Land
			49	378/A	3037	0.03	0.012	Govt. Land
			50	349	2845	0.06	0.024	Govt. Land
			51	157/A	774	0.01	0.004	Govt. Land
			<b>SUB TOTAL</b>			<b>16.785</b>	<b>6.798</b>	
2	Medikonduru	VISADALA	1	19/B	124	0.35	0.142	Patta Land
			2	18/B,19/B	125	0.38	0.154	Patta Land
			3	17/B	126	0.23	0.093	Patta Land
			4	17/B	127	0.16	0.065	Patta Land
			5	13/B	129	0.020	0.008	Govt. Land
			<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.140</b>	<b>0.462</b>	
3	Medikonduru	MANDAPADU	1	156/B-1A		0.12	0.049	Patta Land
			2	156/B-2A		0.12	0.049	Patta Land
			3	156/B-3A		0.19	0.077	Patta Land
			4	157/B-1		0.43	0.174	Patta Land
			5	161/B-1B		0.57	0.231	Patta Land
			6	161/B-3A		0.18	0.073	Patta Land
			7	161/B-3C		0.11	0.045	Patta Land
			8	161/B-4A		0.13	0.053	Patta Land
			9	161/B-5A		0.12	0.049	Patta Land
			10	162-2		0.61	0.247	Patta Land

			1	170/B		1.170	0.474	Patta Land
			1	171-1B		0.14	0.057	Patta Land
			1	171-2B		0.22	0.089	Patta Land
			1	173/B-1		0.33	0.134	Patta Land
			1	173/B-4		0.50	0.203	Patta Land
			1	193-1		0.10	0.041	Patta Land
			1	201/A-1		0.24	0.097	Patta Land
			1	203/A-1A		0.02	0.008	Patta Land
			1	203/B-1		0.115	0.047	Patta Land
			2	203/B-2		0.58	0.235	Patta Land
			2	204/B		0.58	0.235	Patta Land
			2	205/B-1		0.02	0.008	Patta Land
			2	205/B-2		0.22	0.089	Patta Land
			2	217		0.23	0.093	Patta Land
			2	218/B		1.07	0.433	Patta Land
			2	226/B		1.20	0.486	Patta Land
			2	155/B		0.02	0.008	Govt. Land
			2	161/B-1A		0.26	0.105	Govt. Land
			2	162-1		0.22	0.089	Govt. Land
			3	171-1A		0.13	0.053	Govt. Land
			3	175/B		0.03	0.012	Govt. Land
			3	215/B		0.03	0.012	Govt. Land
			<b>SUB TOTAL</b>			<b>10.005</b>	<b>4.052</b>	
4	TADIKOND A	BANDARUPALL I	1	443/B-2		0.095	0.038	Patta Land
			2	443/B-3		0.085	0.034	Patta Land
			3	470/B		0.32	0.130	Patta Land
			4	471/B		0.01	0.004	Patta Land
			5	476/B		0.72	0.292	Patta Land
			6	477		0.34	0.138	Patta Land
			7	479/B		0.64	0.259	Patta Land
			8	493		0.52	0.211	Patta Land

		9	494/B		0.05	0.020	Patta Land
		10	495/B-1		0.24	0.097	Patta Land
		11	496-A		0.50	0.203	Patta Land
		12	505		0.10	0.041	Patta Land
		13	508		0.01	0.004	Patta Land
		14	509/B		0.28	0.113	Patta Land
		15	510/B		0.19	0.077	Patta Land
		16	513/B		0.07	0.028	Patta Land
		17	542/B		1.05	0.425	Patta Land
		18	617/B-1		0.15	0.061	Patta Land
		19	621/B		0.38	0.154	Patta Land
		20	623/B		0.28	0.113	Patta Land
		21	624/B-1		0.70	0.284	Patta Land
		22	624/B-2		0.08	0.032	Patta Land
		23	626/B-1		0.455	0.184	Patta Land
		24	626/B-2		0.03	0.012	Patta Land
		25	648/B-1		0.22	0.089	Patta Land
		26	651-2		0.19	0.075	Patta Land
		27	652/B		0.32	0.130	Patta Land
		28	656		0.30	0.122	Patta Land
		29	658-2		0.11	0.045	Patta Land
		30	658-5		0.17	0.069	Patta Land
		31	659/B		0.30	0.122	Patta Land
		32	664/B		0.08	0.032	Patta Land
		33	665/B-1		0.46	0.186	Patta Land
		34	665/B-2A		0.08	0.032	Patta Land
		35	665/B-2C		0.21	0.085	Patta Land
		36	666-2A		0.01	0.004	Patta Land
		37	666-2C		0.14	0.057	Patta Land
		38	445/B		0.06	0.024	Govt. Land
		39	495/B-2		0.06	0.024	Govt. Land

			9					Land
			40	543/B		0.11	0.045	Govt. Land
			41	649/B		0.02	0.008	Govt. Land
			42	665/B-2B		0.17	0.069	Govt. Land
			43	666-2B		0.07	0.028	Govt. Land
			SUB TOTAL			10.370	4.200	
5	GUNTUR WEST	NALLAPADU RURAL	1	674-2		0.20	0.081	Patta Land
			2	680-1		0.23	0.093	Patta Land
			3	681-1		0.32	0.130	Patta Land
			4	683-2		0.115	0.047	Patta Land
			5	684-1B		0.05	0.020	Patta Land
			SUB TOTAL			0.915	0.371	
6	GUNTUR WEST	CHINA PALAKALURU	1	185/B		1.20	0.486	Patta Land
			2	188-1		0.44	0.178	Patta Land
			3	188-3		0.04	0.016	Patta Land
			4	191-A		0.02	0.008	Patta Land
			5	223-3		0.10	0.041	Patta Land
			6	224-3		0.16	0.065	Patta Land
			7	242-3		0.19	0.077	Patta Land
			8	243-C2		0.33	0.134	Patta Land
			9	246-A3		0.27	0.109	Patta Land
			10	246-C2		0.33	0.134	Patta Land
			11	187		0.15	0.061	Govt. Land
			12	188-2		0.03	0.012	Govt. Land
			13	244		0.11	0.045	Govt. Land
			14	251		0.05	0.020	Govt. Land
			SUB TOTAL			3.420	1.385	
				GRAND TOTAL (1+2+3+4+5+6)				

[F. No. W.Con.182/SRP-03/GNT-BN/23-24/244/20A/171224]

K. SURYANARAYANA, Chief Engineer/Con-III